

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018 (ज्येष्ठ 4, 1940)

क्र. 11488-वि.स.-विधान-2018.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 25 मई, 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 25 मई 2018

ओम प्रकाश कोहली  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.